



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 10.11.2020

1-थाना जारचा पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से रेत से भरी 01 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद।

दिनांक 09.11.2020 को थाना जारचा पुलिस द्वारा अवैध खनन करते हुए 02 अभियुक्त 1. बुल्लन उर्फ गुलफाम पुत्र रशीदा निवासी ग्राम करौंदा थाना जारचा 2. रोहित पुत्र राम भूल निवासी करौंदा थाना जारचा को समाना नहर ग्राम खुर्शेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से रेत से भरी एक ट्रॉली व ट्रैक्टर बरामद हुई है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. बुल्लन उर्फ गुलफाम पुत्र रशीदा निवासी ग्राम करौंदा थाना जारचा
2. रोहित पुत्र राम भूल निवासी ग्राम करौंदा थाना जारचा

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 264/20 धारा 379 411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम थाना जारचा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

रेत से भरी एक ट्रॉली व ट्रैक्टर

2- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा लाईसेंसी रिवाल्वर से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक लाईसेंसी रिवाल्वर व 05 जिंदा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 09.11.2020 को प्रार्थी रामवीर पुत्र अगतराम ग्राम सोरखा थाना सै0 49 नोएडा गौ0बु0नगर ने सूचना दी कि उसके पड़ोस में रहने वाले सुभाष पुत्र स्व0 हरबल सिंह, कालू पुत्र सुभाष व हरेन्द्र पुत्र सुभाष निवासी गण ग्राम सोरखा ने प्रार्थी के परिवार पर जान से मारन की नियत से फायर किया है, सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 937/20 धारा 307 भादवि बनाम सुभाष, कालू व हरेन्द्र पंजीकृत कर थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा दिनांक 10.11.2020 को अभियुक्तो 1. सुभाष पुत्र स्व0 हरबल सिंह निवासी ग्राम सोरखा नोएडा गौ0बु0नगर 2. कालू पुत्र सुभाष निवासी को एफ.एन.जी. हिन्दन नदी के पुल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सुभाष के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक रिवाल्वर मय 5 जिन्दा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। वांछित अभियुक्त हरेन्द्र की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. सुभाष पुत्र स्व0 हरबल सिंह निवासी ग्राम सोरखा नोएडा गौ0बु0नगर
2. कालू पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सोरखा नोएडा गौ0बु0नगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 937/2020 धारा 307 भादवि थाना सै0 49 नोएडा गौ0बु0नगर बनाम सुभाष, कालू, हरेन्द्र
2. मु0अ0स0 939/2020 धारा 30 आयुध अधिनियम थाना सै0 49 नोएडा गौ0बु0नगर बनाम सुभाष

बरामदगी का विवरण-

एक लाईसेंसी रिवाल्वर, 05 जिंदा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

3- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.11.2020 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 577/2020 धारा 147/148/149/308/323/504/506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र विषेश चन्द्र निवासी सदरपुर सेक्टर 45 खजूर कालोनी थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर को आम्रपाली चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर वादी व उसके भाई सुनील कुमार को गाली गलोच करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये लाठी, डण्डो व राड से प्रहार किया गया जिससे सुनील का घायल होकर बेहोश हो गये थे। उक्त प्रकरण में मु0अ0स0 577/2020 धारा 147/148/149/308/323/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

सचिन पुत्र विषेश चन्द्र निवासी सदरपुर सेक्टर 45 खजूर कालोनी थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर
पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 577/2020 धारा 147/148/149/308/323/504/506 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा
गौतमबुद्धनगर

4- थाना कासना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.11.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 305/2020 धारा 279/ 337 /427 भादवि के अंतर्गत वांछित चल रहे अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र राजाराम निवासी मोलावास थाना मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान) को कस्बा कासना से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण-

विक्रम सिंह पुत्र राजाराम निवासी मोलावास थाना मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 305/2020 धारा 279/337/427 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.11.2020 को पीयूष उम्र 6 वर्ष विधान उम्र 4 वर्ष घर से लापता हो गए थे , जिन्हें लावारिस हालत में थाने पर लाया गया। थाना फेज 2 पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर शीघ्रता से दोनों बच्चों के परिजनों की रात्रि में ही तलाश कर सकुशल उनके सुपुर्द किया गया। बच्चों के परिजनों व जनता के लोगों द्वारा पुलिस की शीघ्रता से की गई कार्रवाई पर आभार व्यक्त किया।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना बीटा -2 कमिश्नर्रेट गौतमबुद्धनगर ने उ0 प्र0 के समस्त थानों में चौथी बार पाया प्रथम स्थान

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा चलायी जा रही वेबसाइट <http://jansunwai.up.nic.in> पर जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त होने वाले शिकायती संदर्भों के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किए जाने में थाना बीटा -2 ग्रे.नो. कमिश्नर्रेट जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा उ0प्र0 के समस्त थानों में माह जनवरी से माह अक्टूबर तक चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद के यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर्रेट की यातायात पुलिस, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में निरंतर रूप से संचालित कर रही है जागरूकता कार्यक्रम

पुलिस कमिश्नर्रेट यातायात पुलिस के द्वारा आज यातायात माह के अंतर्गत कई स्थानों पर संचालित किया गया जागरूकता कार्यक्रम, वाहन चालकों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

जनपद के यातायात को सुगम एवं और अधिक सर्वग्राही बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा यातायात माह का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर्रेट गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हुए वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि जनपद गौतम बुद्ध नगर के यातायात को और अधिक सुगम एवं सर्वग्राही बनाया जा सके। इस श्रृंखला में आज पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर्रेट गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस के द्वारा श्याम सिंह कन्या स्मारक इंटर कॉलेज की छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनजीओ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हुए यातायात नियमों की प्रमुखता के साथ जानकारी उपलब्ध कराई गई। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा कच्ची सड़क सूरजपुर के पास अभियान चलाकर ट्रैक्टर चालकों को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही ट्राली के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। इसी क्रम में सूरजपुर ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें भी वाहन चलाने के दौरान यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात पुलिस के द्वारा आज यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान भी संचालित किया गया जिसमें दीप्तिमा ओझा ने अपने बेटे नवीन के लिए मेरा बेटा यातायात नियमों का पालन करेगा टाइटल के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जनपद के

सभी वाहन चालकों का आह्वान करते हुए कहा है कि यातायात की दृष्टि से जनपद गौतम बुद्ध नगर बहुत ही संवेदनशील जनपद है। अतः जनपद में सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए यातायात पुलिस का सहयोग कर जनपद के यातायात को सुगम बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें ताकि जनपद का यातायात और अधिक सुगम बन सके। उन्होंने यहां पर यह भी स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का जनपद में पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस निरंतर रूप से जहां एक और जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही है वहीं दूसरी ओर निरंतर रूप से अभियान संचालित करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के विरुद्ध शक्ति के साथ अभियान चलाकर चालान एवं शमन शुल्क वसूल करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है। अतः सभी वाहन चालक दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए यातायात नियमों का आवश्यक रूप से पालन सुनिश्चित करें।